

तुरंत रिलीज के लिए

## डाउनटाउन ब्रैम्पटन में तेज़ी से नए सार्वजनिक स्थान पेश किए जा रहे हैं

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (4 सितम्बर, 2020) – लंबे वीकेंड से पहले ही – सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने, डाउनटाउन ब्रैम्पटन बिजनेस इम्प्रूवमेंट एरिया (Downtown Brampton Business Improvement Area) के साथ साझेदारी में, निवासियों और आगंतुकों (विजीटर्स) के आनंद के लिए, डाउनटाउन में दो नए पार्कलेट (पगडंडी का विस्तार) पेश किए हैं।

शारीरिक दूरी और सुरक्षा संबंधी उपायों को ध्यान में रखते हुए, सिटी ने तीन पार्किंग स्थानों को, जनता के लिए हरियाली से भरपूर, बैठने वाले क्षेत्रों में बदला है, जहां निवासी सुरक्षित रूप से मिलजुल सकते हैं। दो पार्कलेट, 38 एंड 40 मेन स्ट्रीट नॉर्थ (38 and 40 Main Street North) और 64 मेन स्ट्रीट नॉर्थ (64 Main Street North) (विवियन लेन (Vivian Lane) के सामने) स्थित हैं।

ये स्ट्रक्चर, 1 नवंबर तक लगे रहेंगे।

### स्पोर्ट लोकल ब्रैम्पटन

कोविड-19 (COVID-19) ने लोकल कारोबारियों पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला है और अब उन्हें, ब्रैम्पटन के समुदाय से, पहले से कहीं अधिक सहयोग की जरूरत है। मई में, ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल (Brampton City Council) ने ब्रैम्पटन की [इकोनॉमिक रिकवरी स्ट्रेटजी \(Economic Recovery Strategy\)](#) को मंजूरी दी थी, जिसमें छोटे कारोबारों, रेस्टोरेंट्स और टूरिज़्म को सहयोग देने जैसी कार्रवाईयां शामिल हैं। अब तक सिटी, कई नई पहलकदमियों की शुरुआत कर चुकी है, इनमें शामिल हैं, *स्पोर्ट लोकल ब्रैम्पटन (Support Local Brampton)* अभियान और *पैटियो ब्रैम्पटन (Patio Brampton)* प्रोग्राम। जहां संभव हो, निवासियों को लोकल वस्तुएं खरीदने, लोकल रेस्टोरेंट्स से खाने-पीने, लोकल वस्तुएं गिफ्ट देने और लोकल को स्पोर्ट करने की सलाह दी जाती है।

### हवाले

“कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए हमारी सिटी के संपूर्ण प्रयासों के दौरान, हमने अपने निवासियों और कारोबारियों को सहयोग देने के लिए, प्रोग्रामिंग, सेवाओं और स्थानों को बढ़िया रूप दिया। विस्तृत पैटियोज से लेकर इन नए पार्कलेट्स तक, हम हमेशा नए तरीके ढूंढते हैं, जिनसे निवासी ब्रैम्पटन में सुरक्षित रूप से, इसकी बेहतर जगहों का आनंद ले सकें। हमारे डाउनटाउन में, ये नई आउटडोर जगहें, लंबे वीकेंड से पहले ही पेश की गई हैं। मैं हर किसी को सुरक्षित रूप से आनंद लेने की सलाह देता हूं!”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“इस प्रोजेक्ट में ब्रैम्पटन बी.आई.ए. की साझेदारी के लिए उनका धन्यवाद। ये नए पार्कलेट, हमारी सिटी को दुबारा खोलने और बहाली रणनीति को सहयोग करते हैं क्योंकि ये निवासियों के लिए, डाउनटाउन के लोकल कारोबारियों के पास जाने के समय, नए और सुरक्षित स्थान प्रदान करते हैं।”

- *मार्टिन मेडेइरोस (Martin Medeiros), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 3 और 4; चेयर, प्लानिंग एंड डेवलेपमेंट; लीड, मेयर्स रीओपनिंग एंड रिकवरी वर्किंग ग्रुप, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

“इस महामारी के दौरान, हमने देखा है कि हमारे कर्मचारी, निवासी और कारोबारी कितने समर्पित, नवीनताकारी और ध्यान रखने वाले हैं। उन्होंने, एक-दूसरे को और हमारी सामूहिक बहाली को सहयोग देने के लिए, अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई है। यह प्रयोगात्मक प्रोग्राम, उस जोश को संक्षेप में दर्शाता है। हमारे डाउनटाउन में ये पार्कलेट्स बनते देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है।”

- *रोएना सैंटोस (Rowena Santos), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 1 और 5, चेयर, कम्युनिटी सर्विसिज, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

“ये नए पार्कलेट्स, सुरक्षित और अर्थपूर्ण तरीके से, हमारे शहर की पूरी बहाली को सहयोग देने के लिए, निवासियों, कारोबारियों और लोकल स्टैकहोल्डर्स के साथ, हमारी लगातार भागीदारी और नजदीकी सहयोग का सीधा परिणाम हैं। मैं, डाउनटाउन ब्रैम्पटन बी.आई.ए. में हमारे साझेदारों और सिटी में हमारी टीम का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारे निवासियों और आगंतुकों के आनंद के लिए, इन स्थानों को बढ़िया रूप दिया।”

- *डेविड बैर्रिक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

“डाउनटाउन ब्रैम्पटन बी.आई.ए. ने, ब्रैम्पटन के डाउनटाउन के लिए कुछ बहाली प्रोग्रामों में, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन के अर्बन डिज़ाइन ग्रुप से सहयोग किया है और सार्वजनिक क्षेत्र को फुर्तीला और क्रियाशील रहने में सहयोग देना जारी रखते हुए, मेन स्ट्रीट नॉर्थ पर, पायलट पार्कलेट प्रोग्राम को सक्रिय होते देखकर खुश है।”

- *सूजी गॉडफ्रॉय (Suzy Godefroy), एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, डाउनटाउन ब्रैम्पटन बिजनेस इम्प्रूवमेंट एरिया (बी.आई.ए.)*

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 650,000 लोगों और 70,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) पर और जानें।

**मीडिया संपर्क**

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोआर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)